

Summer Holiday Homework

Class-8

Subject-computer

1. Make types network LAN, WAN, MAN, PAN ,WAN in copy.
2. Make network topology:-[bus,ring,star,mesh,hybrid, tree]
in copy.

**EMMANUEL MISSION SCHOOL
HOLIDAY HOMEWORK
SUBJECT - ENGLISH
CLASS - 8TH**

- (A).** Prepare a Dictionary in your English 2nd Notebook having minimum 10 words of each Alphabet (new words) with meaning to enhance the vocabulary .


Holiday home work □
Class 8
Subject -hindi

अनौपचारिक पत्र

1. आपका छोटे भाई को कुसंगति से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए अनौपचारिक पत्र लिखिए
2. अपने पिताजी को पत्र लिखकर विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में बताएं
3. मित्र को मातृ- शोक के अवसर पर सांत्वना पत्र लिखिए

चित्र वर्णन

निम्नलिखित दोनों चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करें



Holiday Homework

Class: VIII

Subject- general knowledge

1. Write State and capital in copy.
2. Write all Rajasthan districts name in copy.
3. Read newspaper and write 5 news headlines per day.

Holiday Homework

Class - 8th

subject - Sanskrit

Topic - शब्दरूपाणि

पेज न. 123 से 128 तक

(. अस्मद्, युष्मद्, यत्, इदम्, मातृ (माता) स्वस् (बहन) राजन् (राजा) के रूप संस्कृत की काँपी में लिखना व याद करना ।

SUMMER HOLIDAYS HOMEWORK

Class : 8th

Subject: Science

1. Prepare a report on petroleum refining.
2. Collect data about the crops grown in Jaisalmer and prepare a report how these crops are grown by farmers. Write methods tools in details in your report.

Summer Holiday Homework

Class 8

Subject: Social science

Q-1 Prepare a chart from the following topics(any one).

- 1.Resources:-Types, examples and there conservation.
- 2.Land,soil,water, natural vegetation:- factors responsible for there depletion and conservation measures.
- 3.How,when and where (History):-Importance of dates, sources of history.
- 4.The Indian constitution:-Key features of Indian constitution (Political science).
- 5.Understanding Secularism:- in Indian context.

Q-2 Learn all the chapters which are completed.

Part A: Adding and subtracting

- 1 $3x + 8x$ _____
- 2 $2y + 3y - y$ _____
- 3 $13m + 2m + 6m$ _____
- 4 $6p + 4p - 3p$ _____
- 5 $10y - 11y + y$ _____
- 6 $-2k + 5k + 11k - 8k$ _____
- 7 $3 + 6p + 8 - 2p$ _____
- 8 $6y^3 + 6y + 3y^3 - 8y$ _____
- 9 $-2y - 3y - 4y + y$ _____
- 10 $4k^2 + 3 - 2k^2 - 11$ _____
- 11 $x^2 - 3x - x + 8$ _____
- 12 $p^2 - 3m + p^2 + 2m$ _____
- 13 $4d + 17 + 5d - 22$ _____
- 14 $x^2 + 3x - 3x^2 - 6x$ _____
- 15 $6x^2 + 8x - 3x^2 + 12x$ _____
- 16 $2m - 6 + 4m + 11 - m$ _____
- 17 $3ab + 7ba + 2b$ _____
- 18 $4mn + 6n - 3nm - 2n$ _____
- 19 $-7pq + 9ef - 3pq - 2ef$ _____
- 20 $2xy^3 + 3x^3y - 6xy^3 - 3x^3y$ _____
- 21 $16m^2y^2 - 3m^2y^2 - 12y^2m^2$ _____

Part B: Multiplying and dividing

- 1 $2 \times 3a$ _____
- 2 $4b \times 2b$ _____
- 3 $6x \times (-4y)$ _____
- 4 $3p \times (-2p) \times 5$ _____
- 5 $24x \div x$ _____
- 6 $16x^2 \div 8x$ _____
- 7 $15a^2b^2 \div 3ab$ _____
- 8 $24ab^2 \times 3b$ _____
- 9 $-4 \times 3d \times 2d$ _____

- a)** $x + y = 5$
 $x - y = 1$
- b)** $2x + 2 = x - y$
 $3x + 2y = 0$
- c)** $2x - 25y = 17$
 $15y - x = -6$
- d)** $x + 3y = 11$
 $3(x - 1) - 5y = -68$
- e)** $\frac{1}{3}x + \frac{7}{8}y = 8$
 $14x - 5y = 2$
- f)** $a = \frac{7}{2}b + 1$
 $2a - 4b = -1$
- g)** $3(2x - 5) + 2y = -41$
 $\frac{x - 3y}{9} - y = 5$
- h)** $\frac{3a + 1}{4} - \frac{4b - 1}{7} = 1$
 $\frac{a + 1}{3} - \frac{b + 2}{4} = 1$
- i)** $5x - 14 = 3y$
 $7(3x - 2y) = 35$
- j)** $(x - 2)(y + 5) = (x - 1)(y + 2)$
 $(y - 3)(x + 4) = (x + 7)(y - 4)$
- k)** $2x + y = 11$
 $3x - y = 9$
- l)** $3x + 4y = 253$
 $y = 5x$
- m)** $\frac{x}{5} - 2 = \frac{y}{10}$
 $5x + 45 = -7y$
- n)** $\frac{2x + 3}{3y - 2} = 1$
 $x(2y - 5) - 2y(x + 3) = 2x + 1$
- o)** $3(3y + 2) + 4(5x - 4) = 0$
 $\frac{5x - 4}{15x - 2} = \frac{3y + 2}{9y + 4}$
- p)** $\frac{2x - y + 3}{3} - \frac{x - 2y + 3}{4} = 4$
 $\frac{3x - 4y + 3}{4} + \frac{4x - 2y - 9}{3} = 4$